



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
भारी पानी बोर्ड / Heavy Water Board

दिनांक : 22.11.2018

अभ्यर्थियों के लिए सूचना

जिन अभ्यर्थियों ने भारी पानी बोर्ड के विज्ञापन संख्या : HWB/1/2018 के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड II तथा III के पद हेतु आवेदन किया है, वें कृपया नोट करें कि उक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

स्तर - 1 – लिखित परीक्षा

: वैकल्पिक परीक्षा के अंतर्गत

क) सामान्य अंग्रेजी

ख) सामान्य ज्ञान

ग) सामान्य बौद्धिक एवं तर्क तथा

घ) मात्रात्मक योग्यता ( अंकगणितीय ).

कुल अंक : 100 अवधि : 1½ घंटे

स्तर - 2 - आशुलिपि

कौशल परीक्षा

: स्तर – 1 की लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करनेवाले प्रथम 40 अभ्यर्थियों को (अर्थात् 1:20 के अनुपात में) मेरिट क्रम में स्तर – 2 की आशुलिपि कौशल परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते की अनारक्षित श्रेणी में न्यूनतम 50 अंक तथा आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए ।

पैनलबद्ध करने का तरीका

: स्तर – 1 तथा स्तर – 2 की परीक्षा के आधार पर 40% वेटेज स्तर – 1 की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को तथा 60% वेटेज स्तर – 2 की आशुलिपि कौशल परीक्षा को दिया जाएगा ।

आगे..

आशुलिपिक ग्रेड II तथा आशुलिपिक III के पद हेतु अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी अपना कॉल लेटर/एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट [www.hwb.mahaonline.gov.in](http://www.hwb.mahaonline.gov.in) पर लॉग इन कर सकते हैं। आशुलिपिक ग्रेड II तथा आशुलिपिक III के अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट [www.hwb.gov.in](http://www.hwb.gov.in) पर अपलोड कर दी गई है।

ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपना ट्रैन्सेक्शन आईडी/आवेदन आईडी एवं पासवर्ड खो दिया है तथा लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं, वे भापाबो की वेबसाइट पर जारी ट्रैन्सेक्शन आईडी/आवेदन आईडी का उपयोग कर अपना कॉल लेटर/एडमिट कार्ड वेबसाइट [www.hwb.mahaonline.gov.in](http://www.hwb.mahaonline.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

स्तर – 1 की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय की गई स्व-घोषणा के आधार पर तय की गई है। अभ्यर्थी को इस पद हेतु सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता की कोई शर्त पूरी नहीं करता है / विज्ञापन के अनुसार आवश्यक पात्रता मानक में नहीं आता है तो उसे अभ्यर्थी के रूप में स्पष्ट तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्तर – 1 की लिखित परीक्षा में बैठने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह परीक्षा हेतु पात्रता की सभी शर्तें पूरी कर रहा है।

\* \* \* \* \*